



GB Visit <https://hamiltonbeach.global> for our complete line of products and Use and Care Guides – as well as delicious recipes, tips, and to register your product online!

HI हमारी पूरी उत्पाद श्रृंखला और उपयोग व सार-संभाल निर्देशिका - और साथ में स्वादुपिठ पाक-बर्धियों, टर्म्स और आपके उत्पाद को ऑनलाइन रजिस्टर करने के लिए यहाँ संपर्क करें <https://hamiltonbeach.global>!

يرجى زيارة **AR**

الموقع <https://hamiltonbeach.global> للاطلاع على مجموعة المنتجات الكاملة ودليل الاستخدام والرعاية، فضلاً عن وصفات لذيذة ونصائح، كما يمكنك تسجيل المنتج الذي اشتريته على الإنترنت!

MS Lawati <https://hamiltonbeach.global> untuk barisan produk kami yang lengkap dan Panduan Penggunaan dan Penjagaan – begitu juga dengan resipi yang sedap, tip dan untuk daftar barang anda secara dalam talian!



GB **Juicer Mixer Grinder**
Operation Manual – Original Instructions (2)

HI **जूसर मिक्सर ग्राइंडर**
ऑपरेशन मैनुअल (16)

(28) **مطحنة خلاط العصير** **AR**
دليل التشغيل

MS **Pengisar Pencampur Jus**
Manual Pengendalian (42)

Type: B96

IMPORTANT SAFEGUARDS

GB

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons, including the following:

1. Read all instructions.
2. This appliance is not intended for use by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are closely supervised and instructed concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
3. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used near children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
5. To protect against risk of electrical shock, do not put cord, plug, base, or motor in water or other liquid.
6. Turn the appliance OFF (○), then unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning. To unplug, grasp the plug and pull from the outlet. Never pull from the power cord.
7. Normal operating cycle of appliance cycle is 2 minutes of on time. Allow 1 minute off period between each maximum cycle.
8. Avoid contact with moving parts.
9. Do not operate any appliance with a damaged supply cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been dropped or damaged in any manner. Supply cord replacement and repairs must be conducted by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. Call the provided customer service number for information on examination, repair, or adjustment.
10. The use of attachments, including canning jars, not recommended or sold by the appliance manufacturer may cause a risk of injury to persons.
11. Do not use outdoors.
13. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
14. Keep hands and utensils out of the jar and away from the cutting blade, while blending or chopping food, to reduce the risk of severe personal injury and/or damage to the appliance or available attachments (attachments may not be provided with appliance). A rubber spatula may be used but must be used only when appliance is not running.

15. Blades are sharp; handle carefully— especially when cleaning inside jar.
16. Do not use a broken, chipped, or cracked jar.
17. Do not use broken, cracked, or loose cutting blade assembly.
18. Always operate appliance with lid in place. Remove filler cap only for adding ingredients.
19. Do not run a soup cycle unless appliance has fully cooled to room temperature.
20. When blending hot liquids in the open top blender jar, remove center filler cap and close any edge lid opening intended for pouring. To prevent possible burns: Do not exceed the 2-cup (473-ml) level. Hot liquids may push off lid during blending; therefore, with the protection of an oven mitt or thick towel, place one hand on top of the lid, keep exposed skin away from the lid, and start blending at lowest speed.
21. Be careful if hot liquid is poured into the jar as it can be ejected out of the appliance due to sudden steaming.
22. Do not leave appliance unattended while it is operating.
23. Check that the appliance is OFF (○) before plugging cord into wall outlet. To disconnect, turn the control to OFF (○); then remove plug from wall outlet. To unplug, grasp the plug and pull from the outlet. Never pull from the power cord.
24. Do not use appliance for other than intended purpose.
25. Keep hands and utensils, other than the tamper provided, out of container while blending to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the blender. The cover must remain in place when using the tamper through the cover opening. A scraper may be used but must be used only when the blender is not running.
26. **CAUTION!** In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-off, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.
27. Your plug is provided with a 13-amp fuse approved by ASTA to B.S. 1362. If you need a replacement fuse carrier, it must be replaced with the same colour-coded carrier with the same markings. Fuse covers and carriers can be obtained from approved service agents.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Other Consumer Safety Information

This appliance is intended for household use only.

⚠ WARNING Electrical Shock Hazard: The length of the cord used on this appliance was selected to reduce the hazards of becoming tangled in or tripping over a longer cord. If a longer cord is necessary, an approved extension cord may be used. The electrical rating of the extension cord must be equal to or greater than the rating of the appliance. Care must be taken to arrange the extension cord so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or accidentally tripped over.


If the cutting blade assembly locks and will not move, it will damage the motor.

Do not use. Visit <https://hamiltonbeach.global> for service center locations or kindly take the product to the place of purchase.

Do not place blender jar in the freezer filled with food or liquid. This can result in damage to the cutting blade assembly, jar, blender, and possibly result in personal injury

NOTE: This machine is equipped with motor overload protection. If the motor stops during operation due to overheating, unplug and allow it to cool down for approximately 15 minutes. Plug machine back in to resume normal operation.

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

Disconnect power before cleaning blender base.
Do not immerse cord, plug, or base in water or any other liquid.

Failure to follow these instructions can result in death or electrical shock.



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded outlet.
Do not remove ground.
Do not use an adapter.
Do not use an extension cord.
Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

⚠ WARNING



Cut Hazard

The blending blade is sharp.
Always place lid on container when blending.

Do not put hands, spoons, or other utensils in container when blending.
Failure to follow these instructions can result in broken bones, cuts, or other injuries.



Burn Hazard

Always use caution when blending hot contents.
Failure to follow these instructions can result in burns.

Other Consumer Safety Information - Continued




Recycling the Product at the End of Its Service Life

The wheeled bin symbol marked on this appliance signifies that it must be taken over by a selective collection system conforming to the WEEE Directive so that it can be either recycled or dismantled in order to reduce any impact to the environment. The user is responsible for returning the product to the appropriate collection facility, as specified by your local code. For additional information regarding applicable local laws, please contact the municipal facility and/or local distributor.

Parts and Features


Before first use: After unpacking appliance, wash everything except Base in hot, soapy water. Dry thoroughly. Wipe Base with a damp cloth or sponge. **DO NOT IMMERSE BASE IN WATER.** Care should be taken when cleaning inside of Jar as the cutting blade assembly is very sharp.



NOTE: All Jars have fixed multi-purpose blades.

Model: 58770-SAU
Type: B96
Ratings:
220-240 V~ 50-60 Hz 1400 W

Parts and Features (cont.)



Using Your Juicer-Mixer-Grinder: Reference Table

Food Examples	Recommended Jar Size	Recommended Process Selection	Recommended Max Volume (mL)
Cereal grains	0.5L (pre-cut large pieces to 2.5cm or less)	Dry	Any
Roasted red chilis			
Jeera			
Idli batter	1.0L / 1.5L	Wet Hard	900
Dal (lentils, beans, peas)			900
Coconut chutney			900
Peanut butter	1.0L / 1.5L	Wet Soft	600
Tomato and onion chutney			900
Curry paste			600
Soups: Mulligatawny, very thin such as carrot pieces and water by scale 1:4 (longer cycle provides heating)	1.0L	Soup	Any
Purees such as carrot pieces and water by scale 2:3	1.0L/1.5L	Blend	Any
Blending			
Juicing			

Sample Recipes

Idli Batter

Preparation:

1. Pre-soak Idli Rice for 4 – 12 hours with twice volume of water.
2. Drain excess water after soaking.

Recipe:

1. Combine 2 parts water to 3 parts Idli Rice (by weight).

Dal (Chickpea Hummus recipe)

Recipe:

1. Pre-soak dry chickpeas for 12 hours with twice volume of cold water.
2. Drain chickpeas, put them in a pot and fill with new water, 2 tsp salt and 1 tsp baking soda.
3. Boil chickpeas, reduce heat to a low boil for 1 hour to soften them.
4. Drain chickpeas and let cool to room temperature.
5. Combine ingredients using ratio of 2 cups chickpeas, ½ cup cold water, juice from ½ a lemon, 2 garlic cloves, 3 tbsp tahini and 2 tbsp olive oil.
6. Press and release pulse function button multiple times until desired consistency is reached.

Coconut Chutney

Preparation:

1. Remove the meat of fresh Coconuts from outer shell and cut into 1" chunks.

Recipe:

1. Add Fresh Coconut chunks to jar for batch test size, Add 5 mint Leaves.

Peanut Butter

Recipe:

1. Add Roasted peanuts to volume desired.

Onion & Tomato Chutney

Preparation:

1. Cut fresh Tomatoes and fresh Onions into 1" chunks.

Recipe:






1. Add Tomato and Onion chunks to jar in 1: 1 ratio by volume.

Curry Paste









Recipe (Makes approx. 1.5 cups of curry paste):

1. Chopped Onion - 1 cup, Ginger 1 inch piece, Garlic 3-4 cloves.
2. Chili pepper 2-3, Diced Tomato 1 cup.





Assembly






Operation – MANUAL



Operation – PRESET





Using the Tamper



Cleaning



⚠ WARNING Electrical Shock Hazard.
Disconnect power before cleaning. Do not immerse cord, plug, or base in water or any other liquid.



Troubleshooting

Display shows Error Codes E01.

- Blade is jammed with food. Remove jar and lid. Use Scraper to stir food. Repeat blending.

Appliance fails to start or stops while it is running.

- Make sure that the Power Switch Button is ON (I) and that it is illuminated blue.
- Check to see if unit is securely plugged into an electrical outlet of the proper voltage and frequency.
- Check to see if the fuse for the electrical outlet has blown or if the Reset Button on the bottom rear of Base has switched to OFF (O).
- This appliance is equipped with an interlock feature — the appliance will fail to start or will stop when either Lid or Jar are not locked properly in place.
- Press Reset Button on bottom of Base.

Red light on Motor Temperature Status Indicator starts to flash and appliance stops running.

- Motor overload protection has engaged. Unplug and let cool for 15 minutes. Press Reset button on bottom of Base and plug back in to restart blending.

If problem persists or if experiencing any other problem, please visit <https://hamiltonbeach.global> for service center locations or kindly take the product to the place of purchase.

Notes

Unit does not respond to button commands.

- Turn unit power off and back on using the Power Switch to reset the controls.
- If problem persists, the unit will need to be serviced.

Ingredients will not mix properly.

- Check to see if enough liquid has been added to the ingredients. Mixture should be fluid and free-flowing at all times.
- Solid pieces are too large.
- Container is too full. Do not fill past MAX marking.
- Cutter assembly blades are not sharp or are damaged.
- Select speed to create a fluid blend.

महत्वपूर्ण सुरक्षा

HI

बिजली के उपकरणों का उपयोग करते समय बुनियादी सुरक्षा सावधानी बरतनी चाहिए ताकि आग, बिजली के झटकों और / या व्यक्तियों को चोट पहुंचने के जोखिम को कम किया जा सके, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं

1. सभी निर्देश पढ़ें।
2. यह उपकरण कम शारीरिक, संवेदी, या मानसिक क्षमताओं, या अनुभव और ज्ञान की कमी वाले व्यक्तियों द्वारा उपयोग के लिए नहीं है। उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की निगरानी और निर्देश में इसका उपयोग किया जा सकता है।
3. इस उपकरण का उपयोग बच्चों द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। उपकरण और इसकी तार को बच्चों की पहुंच से दूर रखें।
4. बच्चों के पास किसी भी उपकरण का उपयोग होने पर सघन पर्यवेक्षण आवश्यक है। बच्चों को पर्यवेक्षित किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो कि वे उपकरण के साथ न खेलें।
5. बिजली के झटके के खतरे से बचने के लिए तार, प्लग, बेस या मोटर को पानी या अन्य तरल में न डालें।
6. उपकरण के उपयोग में नहीं होने पर, भागों को लगाने या निकालने और सफाई से पहले, उपकरण को बंद करें (), फिर आउटलेट से निकालें, प्लग से निकालने के लिए, प्लग को पकड़ें और आउटलेट से खींचें। कभी भी बिजली की तार से न खींचें।
7. उपकरण का सामान्य संचालन चक्र 2 मिनटि है। प्रत्येक अधिकतम चक्र के बीच 1 मिनटि का वरिाम दें।
8. चलते भागों के संपर्क से बचें।
9. क्षतिग्रस्त तार या प्लग के साथ किसी भी उपकरण को संचालित न करें, या उपकरण खराब होने के बाद या किसी भी तरह से गिरने या क्षतिग्रस्त होने के बाद के खतरे से बचने के लिए तार का प्रतिस्थापन और मरम्मत उसके निर्माता, सेवा एजेंट, या इसी तरह के योग्य व्यक्तियों द्वारा की जानी चाहिए। निरीक्षण, मरम्मत, या समायोजन के बारे में जानकारी के लिए प्रदत्त ग्राहक सेवा नंबर पर कॉल करें।
10. उपकरण निर्माता द्वारा अनुशंसित कैनिंग जार समेत, संलग्नकों का उपयोग व्यक्तियों को चोट पहुंचाने का जोखिम बन सकता है।
11. घर के बाहर इसका उपयोग न करें।
12. तार को मेज के किनारे या काउंटर पर लटकने न दें और स्टोव समेत गर्म सतहों से दूर रखें।
13. गर्म गैस या बिजली संचालित बर्नर या गर्म ओवन के ऊपर या पास में न रखें।
14. गंभीर व्यक्तिगत चोट के जोखिम और / या उपकरण या उपलब्ध अनुलग्नकों

- के नुकसान को कम करने के लिए भोजन को मिश्रित और काटते समय हाथों और बर्तनों को जार और कटाई ब्लेड से दूर रखें, (संलग्नक उपकरण के साथ उपलब्ध नहीं कराए जा सकते हैं)। रबड़ की लेपनी का उपयोग किया जा सकता है लेकिन केवल तभी जब उपकरण नहीं चल रहा हो।
15. ब्लेड तेज हैं; ध्यान से संभालें - खासकर जब जार के अंदर सफाई कर रहे हो।
16. टूट हुए, या क्रैक हुए जार का उपयोग न करें।
17. काटने वाला ब्लेड जो टूटा, क्रैक, या ढीला लगा हो उसका उपयोग न करें।
18. हमेशा ढक्कन के साथ ही उपकरण को संचालित करें। फिलर ढक्कन को केवल सामग्री डालने के लिए ही निकालें।
19. उपकरण के कमरे के तापमान पर आने तक सूष चक्र को न चलाएं।
20. खुले शीर्ष ब्लेंडर जार में गर्म तरल पदार्थ को मिलाते समय, केंद्र भराव कैप को हटा दें और डालने के लिए इच्छित किनारे ढक्कन खोलने को बंद करें। संभावित जलन को रोकने के लिए: 2-कप (473-मिली) स्तर से अधिक न करें। मिश्रण के दौरान ढक्कन को गर्म तरल पदार्थ धक्का दे सकता है; इसलिए, ओवन मिट या मोटी तौलिया की सुरक्षा के साथ, ढक्कन के ऊपर एक हाथ रखें, उजागर त्वचा को ढक्कन से दूर रखें, और सबसे कम गति पर मिश्रण शुरू करें।
21. यदि गर्म तरल को जार में डाला जाता है तो सावधान रहें क्योंकि इससे अचानक भाप बनने के कारण यह उपकरण से बाहर निकल सकता है।
22. जब उपकरण उपयोग में हो के दौरान को अनुपयुक्त न छोड़ें।
23. कॉर्ड को दीवार आउटलेट में प्लग करने से पहले उपकरण बंद करें ()। डिस्क-नेक्ट करने के लिए, नियंत्रण को बंद करें (); फिर दीवार आउटलेट से प्लग हटा दें। अनप्लग करने के लिए, प्लग को समझें और आउटलेट से खींचें। कभी बिजली की तार से खींचें।
24. उद्देश्य के अलावा उपकरण का उपयोग न करें।
25. दयि गए टैंपर के अलावा, हाथों और बर्तनों को कंटेनर से बाहर रखें ताकलोगों और बलेन्डर को किसी चोट से बचाया जा सके। टैंपर के उपयोग के समय कवर ओपनिंग को खोलते समय ढक्कन को उसकी जगह पर रहने दें। स्क्रैपर का उपयोग किया जा सकता है लेकिन केवल तब जब ब्लेंडर चल न रहा हो।
26. चेतावनी! थर्मल कट ऑफ की अनजान रीसेटिंग के कारण खतरे से बचने के लिए, इस उपकरण को बाहरी स्विचिंग डिवाइस, जैसे कि टाइमर, या एक सर्किट से कनेक्ट किया जाना चाहिए जो उपयोगिता द्वारा नियमित रूप से चालू और बंद हो।

इन निर्देशों को याद रखें

अन्य उपभोक्ता सुरक्षा सूचना

यह उपकरण केवल घरेलू उपयोग के लिए है।


⚠ चेतावनी विद्युत झटके के खतरे: इस उपकरण पर प्रयुक्त तार की लंबाई को लंबे समय तक उलझने या टिप् करने के खतरों को कम करने के लिए चुना गया था। यदि लंबी तार की आवश्यकता है, तो एक अनुमोदित विस्तार तार का उपयोग किया जा सकता है। विस्तार तार की विद्युत रेटिंग उपकरण की रेटिंग के बराबर या उससे अधिक होनी चाहिए। विस्तार तार की व्यवस्था के लिए ध्यान देना चाहिए ताकि वह काउंटरटॉप या मेज पर न लटके जहां इसे बच्चों द्वारा खींचा जा सकता है या गलती से ट्राइप किया जा सके। यदि काटने वाले ब्लेड घूमना रूक जाएं और हिले नहीं, तो यह मोटर को नुकसान

पहुंचाएगा। सेवा केंद्र पते के लिए यहाँ संपर्क करें <https://hamiltonbeach.global> या फिर कृपया उत्पाद को जहां से खरीदा है वहां ले जाएं।

भोजन या तरल से भरे ब्लेंडर जार को फ्रीजर में न रखें। इसके परिणामस्वरूप काटने वाले ब्लेड असेंबली, जार, ब्लेंडर, और संभवतः व्यक्तिगत चोट का खतरा हो सकता है

नोट: यह मशीन मोटर अधिभार संरक्षण से लैस है। यदि मोटर गर्म होने के कारण चलना बंद हो जाती है, तो प्लग से निकालें और इसे लगभग 15 मिनट तक ठंडा होने दें। सामान्य ऑपरेशन फिर से शुरू करने के लिए मशीन को वापस से चलाएं।

⚠ चेतावनी



विद्युत झटके का खतरा
ब्लेंडर बेस की सफाई से पहले प्लग को बंद करें। पानी या किसी अन्य तरल में तार, प्लग या बेस को विसर्जित न करें। इन निर्देशों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप मौत या बिजली का झटका हो सकता है।



विद्युत झटके का खतरा।
गाउंड आउटलेट में प्लग करें। गाउंड को मत हटाओ। अनुकूलक का प्रयोग न करें। एकसर्टेशन कॉर्ड इस्तेमाल न करें। इन निर्देशों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप मृत्यु, आग या बिजली का झटका हो सकता है।

⚠ चेतावनी



कटने का खतरा
मिश्रण ब्लेड तेज है। मिश्रण करते समय हमेशा जार पर ढक्कन रखें। मिश्रण करते समय जार में हाथ, चम्मच, या अन्य बर्तन न रखें। इन निर्देशों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप हड्डियां टूट सकती हैं, कटने का खतरा या अन्य चोट हो सकती हैं।



जलने का खतरा
गर्म सामग्री को मिश्रित करते समय हमेशा सावधानी बरतें। इन निर्देशों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप जल सकते हैं।


अन्य उपभोक्ता सुरक्षा सूचना - निरंतर



उत्पाद को उसकी सेवा जीवन के अंत में पुनर्चक्रित करना


इस उपकरण पर चिह्नित पहिएदार बिन प्रतीक यह दर्शाता है कि इसे WEEE निर्देश के अनुरूप एक चयनात्मक संग्रह प्रणाली द्वारा लिया जाना चाहिए ताकि पर्यावरण पर किसी भी प्रभाव को कम करने के लिए इसे या तो पुनर्नवीनीकरण या विघटित किया जा सके। उपयोगकर्ता आपके स्थानीय कोड द्वारा निर्दिष्ट उत्पाद को उचित संग्रह सुविधा में वापस करने के लिए जिम्मेदार है। लागू स्थानीय कानूनों के बारे में अतिरिक्त जानकारी के लिए, कृपया नगर निगम की सुविधा और / या स्थानीय वितरक से संपर्क करें।

भाग और विशेषता



नोट: सभी जारों में बहुउद्देश्यीय ब्लेड लगे हैं।

भाग और विशेषता (निरंतर)



जुसर-मिक्सर-ग्राइंडर का उपयोग करना: संदर्भ तालिका

खाद्य उदाहरण	जार आकार की सळाह	प्रक्रिया चयन की सळाह	अनुशंसित अधिकतम वॉल्यूम (मि.लि)
अनाज के दाने	0.5 लि. (2.5 सेमी या उससे कम के पहले से कटे बड़े टुकड़े)	सूखी	कोई भी
भूनी हुई लाल मिर्च			
जीरा			
इडली का मिश्रण	1.0 लि./1.5 लि	गीला सख्त	900
दाल (मसूर, फलियां, मटर)			900
नारियल की चटनी			900
मूंगफली का मक्खन	1.0 लि./1.5 लि	गीले नरम	600
टमाटर और प्याज की चटनी			900
करी पेस्ट			600
सूप: मुलिगाटावनी, बहुत पतले जैसे गाजर के टुकड़े और पानी को पैमाना 1: 4 (लंबे समय तक चक्र चलाने पर माइश प्रदान करता है)	1.0 लि	सूप	कोई भी
सूप जैसे कि गाजर के टुकड़े और पानी को पैमाना	1.0 ली/1.5 ली	कोई भी	मिश्रण
सम्मिश्रण			
रस निकालना			

नमूना व्यंजन

इडली मिश्रण

की तैयारी:

इडली के चावल को दो गुना पानी में 4 -12 घंटे तक भिगोरें।
भिगोने के बाद अतिरिक्त पानी को निकालें।

विधि:

भाग पानी और 3 भाग इडली चावल (वजन से) को मिलाएं।

दाल (सफेद चने के हुमुस की रेसिपी)

विधि:

सफेद चनों को दो गुना ठंडे पानी में 12 घंटों के लिए भिगोरें।
पानी निकालकर चनों को एक बर्तन में डाल दें और नए पानी में 2 चम्मच नमक और 1 चम्मच बेकिंग सोडा डालें।
चनों को उबाल लें, उन्हें नरम करने के लिए 1 घंटे तक कम आँच पर पकाएँ।
चनों को पानी से निकालें और कमरे के तापमान में ठंडा होने दें।
2 कप चने, ½ कप ठंडा पानी, ½ नींबू का रस, 2 लहसुन की तुरी, 3 बड़े चम्मच ताहिनी और 2 बड़े चम्मच जैतून का तेल अवयवों को मिलाएं।
वांछित स्थिरता तक पहुँचने तक पल्स फ़ंक्शन बटन को कई बार दबाएँ और रिलीज़ करें।

नारियल की चटनी

तैयारी:

बाहरी खोल से ताजा नारियल को निकालें और 1 इंच के टुकड़ों में काट लें।

विधि:

जार में बैच परीक्षण आकार के ताजा नारियल के टुकड़े डालें, 5 पुदीने की पत्तियां डालें।

मूंगफली का मक्खन

विधि:

वांछित मात्रा में भूनी हुई मूंगफली डालें।

प्याज और टमाटर की चटनी

तैयारी:

ताजा टमाटर और ताजा प्याज को 1 " के टुकड़ों में काट लें।

विधि:








टमाटर और प्याज के टुकड़ों को 1: 1 के अनुपात में जार में डालें।

करी पेस्ट








विधि (लगभग 1.5 कप करी पेस्ट बनाने के लिए):

कटा हुआ प्याज - 1 कप, अदरक - 1 इंच टुकड़ा, लहसुन - 3-4 लोंग।
काली मिर्च - 2-3, कटा हुआ टमाटर - 1 कप।





सभा






चालन नियम - हाथ संबंधित



ऑपरेशन - प्रीसेट



टैपर का उपयोग करना





सफाई



⚠ चेतावनी

विद्युत झटके का खतरे

ब्लेंडर बेस की सफाई से पहले प्लग को बंद करें। पानी या किसी अन्य तरल में तार, प्लग या बेस को विसर्जित न करें। इन निर्देशों का पालन करने में



समस्या निवारण

प्रदर्शन त्रुटि कोड E01 दिखाता है।

- ब्लेंड भोजन के साथ जाम हो गया है तो जार और ढक्कन को निकालें। खुरचनी का उपयोग करके खाने को हिलाएं। फिर मिश्रण को चलाएं।

यदि उपकरण बटन से न चले।

- नियंत्रण को दोबारा सेट करने के लिए यूनिट पावर को बंद करें और दोबारा चालू करें।

उपकरण के चलने के दौरान शुरू या बंद न होने पर

- सुनिश्चित करें कि पावर स्विच बटन चालू है (I) और यह प्रबुद्ध नीले रंग का है।
- यह जांचें कि इकाई सुरक्षित रूप से उचित वोल्टेज और आवृत्ति विद्युत आउटलेट में लगी है या नहीं।
- यह जांचें कि क्या बिजली के आउटलेट का फ्यूज उड़ गया है या नहीं या बेस के नीचे के पीछे रीसेट बटन बंद हो गया है।
- यह उपकरण एक इंटरलॉक सुविधा से लैस है - ढक्कन या जार यदि जगह में ठीक से बंद नहीं किया गया तो उपकरण नहीं चलेगा या रूक जाएगा।
- बेस के नीचे रीसेट बटन को दबाएं।

सामग्री ठीक से मिश्रित नहीं होने पर

- यह देखने के लिए जांचें कि पर्याप्त तरल डाला गया है या नहीं सामग्री। मिश्रण तरल पदार्थ और मुक्त बहने वाला होना चाहिए बार।
- ठोस टुकड़े बहुत बड़े हैं।
- जार बहुत भरी है। उसे MAX अंकन से उपर मत भरें।
- कटर असेंबली ब्लेड तेज नहीं हैं या क्षतिग्रस्त हैं।
- द्रव मिश्रण बनाने के लिए गति का चयन करें।

मोटर तापमान स्थिति संकेतक पर लाल रोशनी फ्लैश होना शुरू होती है और उपकरण चलना बंद हो जाता है।

- मोटर अधिभार संरक्षण संलग्न है। प्लग से निकालें और 15 मिनटों के लिए ठंडा होने दें। बेस के नीचे रीसेट बटन दबाएं और दोबारा प्लग लगाकर मिश्रण को मिलाएं।

यदि समस्या का नविकरण नहीं होता है या आपको कोई अन्य परेशानी है तो कृपया संपर्क करें

<https://hamiltonbeach.global> सेवा केंद्र के पते के लिए या जहां से खरीदा है वहाँ ले जाएं।

إجراءات وقائية مهمة

عند استخدام الأجهزة الكهربائية، يجب دائماً اتباع احتياطات السلامة الأساسية للحد من مخاطر حدوث حريق أو صدمة كهربية و/أو إصابة الأشخاص، بما في ذلك ما يلي:

١. قراءة جميع التعليمات.
٢. هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو يفقدون إلى الخبرة والمعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم عن كثب وتعليمهم بشأن استخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.
٣. يجب عدم استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال. يُحفظ الجهاز وسلوكه الكهربائي بعيداً عن متناول الأطفال.
٤. يعد الإشراف الوثيق ضرورياً عند استخدام أي جهاز بالقرب من الأطفال. يجب خضوع الأطفال للإشراف للتأكد من أنهم لا يعثون بالجهاز.
٥. للحماية من مخاطر حدوث صدمة كهربائية، لا تغمر السلك، أو القابس، أو القاعدة، أو المحرك في الماء أو سائل آخر.
٦. أوقف تشغيل الجهاز (O)، ثم افصل سلك التيار من المأخذ عندما لا يكون قيد الاستخدام، وقيل تركيب أو فصل الأجزاء، وقيل التنظيف. **لفصل** القابس، امسك القابس واسحبه من المأخذ. لا تسحب من كابل الطاقة.
٧. تبلغ دورة التشغيل الطبيعي للجهاز دقيقتين (٢) اثنتين. **اسمح** بفترة توقف لمدة ١ دقيقة واحدة بين كل دورة قسوى.
٨. تجنب لمس الأجزاء المتحركة.
٩. لا تشغل أي جهاز بسلك إمداد تيار أو قابس تالف، أو بعد حدوث عطل في الجهاز أو سقوطه أو تضرره بأي شكل من الأشكال. **ينبغي** استبدال كابل إمداد الطاقة وإجراء عمليات الإصلاح من قبل الشركة المصنعة أو وكيل خدماتها أو من خلال الاستعانة بشخص مؤهل مُماتل لتجنب التعرض لأي خطر. **اتصل** برقم خدمة العملاء المزود للحصول على معلومات حول الفحص أو الإصلاح أو الضبط.
١٠. إن استخدام ملحقات، بما في ذلك عيوات التعليب، التي لا توصى بها أو تبيعها الشركة المُصنعة للجهاز، قد يتسبب في حدوث خطر إصابة الأشخاص.
١١. لا تستخدم الجهاز بالخارج.
١٣. لا تضع الجهاز على أو بالقرب من غاز ساخن أو موقد كهربائي أو في فرن ساخن.
١٤. **حافظ** على بقاء اليدين والأواني خارج الدورق وبعيداً عن شفرة القطع، أثناء مزج الطعام أو تقطيعه، لتقليل خطر الإصابة الشخصية الشديدة و/أو تلف الجهاز أو الملحقات المتوفرة (قد لا يتم توفير الملحقات مع الجهاز). **يمكن** استخدام ملعقة مطاطية ولكن يجب استخدامها فقط في حالة عدم تشغيل الجهاز.
١٥. الشفرات حادة؛ فتعامل معها بعناية - وخصوصاً عند تنظيف داخل الدورق.

١٦. **يجب** عدم استخدام دورق مكسور أو متشطي أو مشرّوخ.

١٧. **يجب** عدم استخدام مجموعة شفرات تقطيع مكسورة أو مشرّوخة أو مفكوكة.

١٨. **شغل** الجهاز دوماً والغطاء في مكانه. **أزل** غطاء التعبئة فقط لإضافة المكونات.

١٩. **يجب** عدم تشغيل دورة إعداد حساء إذا لم يبرد الجهاز تماماً لدرجة حرارة الغرفة.

٢٠. **عند** مزج سوائل ساخنة في دورق الخلاط العلوي المفتوح، قم بإزالة غطاء التعبئة المركزي وأغلق أي فتحة غطاء حافة

مخصصة للصب. **لمنع** احتمال الإصابة بحروق: لا تتجاوز مستوى ٢ كوب (٤٧٣ مل). **قد** تدفع السوائل الساخنة الغطاء

أثناء المزج؛ لذلك، باستخدام حماية قفاز الفرن أو المنشفة السميكة، ضع يدًا واحدة فوق الغطاء، وحافظ على الجلد المكشوف بعيداً عن

الغطاء، وابدأ المزج عند أدنى سرعة.

٢١. **توخ** الحذر عند صب السائل الساخن في الدورق حيث إنه يمكن أن يتناثر من الجهاز بسبب التبخير المفاجئ.

٢٢. **لا** تترك الجهاز دون مراقبة أثناء تشغيله.

٢٣. **تحقق** من أن الجهاز قيد "إيقاف التشغيل" (O) قبل توصيل السلك في مأخذ التيار. **لفصل** الجهاز، أدر مفتاح التحكم إلى

وضع إيقاف التشغيل (O)؛ ثم أزل القابس من مقبس الجدار.

لفصل القابس، امسك القابس واسحبه من المأخذ. لا تسحب من كابل الطاقة.

٢٤. **لا** تستخدم الجهاز لغير الغرض المُعد له.

٢٥. **احتفظ** باليدين والأواني، عدا المدك المزود، بعيداً عن الحاوية أثناء المزج لتقليل خطر حدوث إصابة خطيرة للأشخاص

أو تلف الخلاط. يجب أن يظل الغطاء في مكانه عند استخدام المدك خلال فتح الغطاء. يمكن استخدام مكشطة ولكن يجب

استخدامها فقط عندما يكون الخلاط لا يعمل.

٢٦. **تنبيه! لتجنب:** حدوث خطر ناتج عن إعادة الضبط غير المقصود للقطع الحراري، يجب ألا يتم تزويد هذا الجهاز من

خلال جهاز تشغيل خارجي، مثل مؤقت، أو توصيله بدائرة يتم تشغيلها وإيقاف تشغيلها بشكل منتظم من قبل المرفق.

٢٧. **تم** تزويد قابس الجهاز لدي بفاصمة منصهرة بجهد ١٣ أمبير معتمدة من ASTA إلى B.S. ١٣٦٢. إذا كنت بحاجة إلى

استبدال حامل الفاصمة المنصهرة، يجب استبداله بنفس الحامل برموز لونية بنفس العلامات. ويمكن الحصول على أغطية

الفاصمات المنصهرة والحوامل من وكلاء الخدمة المعتمدين."

احفظ هذه التعليمات

معلومات سلامة المستهلك الأخرى

تم إعداد هذا الجهاز للاستخدام المنزلي فقط.

تحذير خطر التعرض لصدمة كهربائية: تم تحديد طول السلك المُستخدم بهذا الجهاز لتقليل مخاطر التشابك أو التعثر فوق السلك أطول. إذا كان من الضروري استخدام سلك أطول، فإنه يمكن استخدام سلك تمديد معتمد. ويجب أن تكون القدرة المقننة الكهربائي لسلك التمديد مساوياً أو أكبر من القدرة المقننة للجهاز. يجب توخي الحذر لترتيب سلك التمديد بحيث لا يبتثني فوق سطح العمل أو سطح الطاولة حيث يمكن سحبه من قبل الأطفال أو التعثر فوقه بطريق الخطأ. في حالة قفل مجموعة شفرة القطع وعدم تحركها، فإنها ستؤدي إلى إتلاف المحرك. فلا تستخدمها.

تفضل زيارة الموقع <https://hamiltonbeach.global> لمعرفة مواقع مراكز الخدمة أو تفضل بأخذ المنتج إلى مكان الشراء.

لا تضع دورق الخلاط في الفريزر مليئاً بالطعام أو السائل. فهذا يمكن أن يؤدي إلى تلف مجموعة شفرة القطع، والدورق، والخلاط، وربما يؤدي إلى إصابة شخصية ملحوظة: هذا الجهاز مجهز بعنصر حماية من الحمل الزائد على المحرك. إذا توقف المحرك أثناء التشغيل نتيجة لارتفاع درجة الحرارة، فأفصله من مأخذ التيار واتركه حتى يبرد لمدة ١٥ دقيقة تقريباً. أعد توصيل الجهاز مرة أخرى لاستئناف التشغيل العادي.

معلومات سلامة المستهلك الأخرى - يتبع

إعادة تدوير المنتج في نهاية مدة خدمته

بشير رمز السلة المزودة بعجلات الموجودة على هذا الجهاز إلى أنه يجب التخلص منه من خلال نظام تجميع انتقائي يتطابق مع توجيه نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بحيث يمكن إعادة تدويره أو تفكيكه لتقليل أي تأثير على البيئة. يعد المستخدم مسؤولاً عن إعادة المنتج إلى مرفق التجميع المناسب، حسبما يحدد القانون المحلي في بلدك. للحصول على معلومات إضافية حول القوانين المحلية المعمول بها، يرجى الاتصال بالمنشأة البديلة و/أو الموزع المحلي.



تحذير

خطر القطع

تعد شفرة المزج حادة.

ضع الغطاء دائماً على الحاوية عند المزج.

لا تضع يديك أو ملاعق أو أي أدوات أخرى في الحاوية عند المزج.

إن عدم اتباع هذه التعليمات يمكن أن يؤدي إلى كسور العظام أو جروح أو إصابات أخرى.



خط الإصابة بحروق

توخ الحذر دائماً عند مزج محتويات ساخنة.

حيث إن عدم اتباع هذه التعليمات يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بحروق.



تحذير

خطر التعرض لصدمة كهربائية

افصل الطاقة قبل تنظيف قاعدة الخلاط

لا تغمر السلك أو القابس أو قاعدة الجهاز في الماء أو أي سوائل أخرى.

إن عدم اتباع هذه التعليمات يمكن أن يؤدي إلى الموت أو التعرض لصدمة كهربائية.



خطر التعرض لصدمة كهربائية


وصّل الجهاز بأخذ مؤرض.

يجب عدم إزالة الأرضي.


لا تستخدم محول.

لا تستخدم أسلاك تمديد.

إن عدم اتباع هذه التعليمات يمكن أن يؤدي إلى الموت أو الحريق أو التعرض لصدمة كهربائية.




قطع الغيار والميزات (يُتبع)



قطع الغيار والميزات

قبل الاستخدام لأول مرة: بعد تفريغ محتويات الجهاز من العبوة، اغسل كل شيء باستثناء قاعدة المحرك في ماء ساخن وصابون. جفف جيدا. امسح قاعدة الجهاز بقطعة قماش مبللة أو إسفنجية. لا تغمر القاعدة في الماء. يجب توخي الحذر عند تنظيف الأجزاء الداخلية للدورق حيث إن مجموعة شفرات القطع حادة للغاية.



ملحوظة: تحتوي جميع الدوارق على شفرات ثابتة متعددة الأغراض.

الطراز: SAU-58770
النوع: B96
القدرة المقتنة:
٢٢٠-٢٤٠ فولت ~ ٥٠-٦٠ هرتز ١٤٠٠ واط

استخدام مطحنة خلاط العصير: جدول مرجعي

أمثلة للطعام	حجم الدورق الموصى به	اختيار العملية الموصى بها	حجم المزج الموصى به (مل)
الحبوب الكاملة غير المطحونة	٠,٥ لتر (تقطع مسبقًا القطع الكبيرة إلى ٢,٥ سم أو أقل)	جافة	أي
فلفل أحمر مشوي			
جيرا			
مخيض إدلي	١,٥ لتر / ١,٥ لتر	الصلبة المبتلة	٩٠٠
حساء (العدس، الفاصوليا، البازلاء)			
صلصة جوز الهند			
زبدة فول سوداني	١,٥ لتر / ١,٥ لتر	الطرية المبتلة	٩٠٠
صلصة الطماطم والبصل			
عجينة الكاري			
الشورية: حساء بتوابل هندية، رقيق جدا مثل قطع الجزر ومياه بمقياس ١:٤ (توفر الدورة الأطول للتسخين)	١,٥ لتر	الشورية	أي
البهارات مثل قطع الجزر ومياه بمقياس ٢:٣	١,٥ لتر / ١,٥ لتر	مزيج	أي
المزج			
عصر العصير			

نماذج وصفات

مخيض إدلي

التحضير:

١. يُنقع الأرز إدلي مسبقًا لمدة ٤-١٢ ساعة مع ضعف كمية الماء.
٢. يصفى الماء الزائد بعد النقع.

الوصفة:

١. يتم مزج ٢ حصة من الماء إلى ٣ حصص من أرز إدلي (حسب الوزن).

الحساء (وصفة الحمص)

الوصفة:

١. يُنقع الحمص الجاف مسبقًا لمدة ١٢ ساعة مع ضعف كمية الماء البارد.
٢. يصفى الحمص، ويوضع في إناء ويملأ الإناء بماء جديد، ٢ ملعقة صغيرة ملح و ١ ملعقة صغيرة مسحوق خبيز.
٣. يغلى الحمص، وتقلل الحرارة حتى الغليان المنخفض لمدة ١ ساعة حتى يطرى.
٤. يصفى الحمص ويترك ليبرد حتى درجة حرارة الغرفة.
٥. تمزج المكونات باستخدام نسبة ٢ كوب من الحمص، ١/٢ كوب ماء بارد، عصير من ١/٢ ليمونة، ٢ فص ثوم، ٣ ملاعق كبيرة طحينة و ٢ ملعقة زيت زيتون.
٦. اضغط على زر وظيفة النبض وحرره عدة مرات حتى الوصول إلى القوام المطلوب.

صلصة جوز الهند

التحضير:

١. تتم إزالة لحم جوز الهند الطازج من الغلاف الخارجي ويقطع إلى قطع بحجم ١ بوصة.

الوصفة:

١. تضاف قطع جوز الهند الطازج إلى الدورق لحجم اختبار دفعة، وتضاف ٥ أوراق من النعناع.

زبدة فول سوداني

الوصفة:

١. أضف الفول السوداني المحمص إلى المقدار المطلوب.

صلصة البصل والطماطم

التحضير:

١. قطع الطماطم الطازجة والبصل الطازج إلى قطع ١ بوصة.







الوصفة:

١. تضاف صلصة الطماطم والبصل إلى الدورق بنسبة ١:١ حسب الحجم.




عجينة الكاري

الوصفة (لإعداد ١,٥ كوب تقريبًا من عجينة الكاري):

١. بصل مبشور - ١ كوب، قطعة زنجبيل ١ بوصة، ٣-٤ فصوص ثوم.
٢. ٣-٢ حبات فلفل حار، ١ كوب طماطم مقطعة.






التشغيل - الدليل



التجميع





استخدام المدك









تحذير: خطر التعرض لصدمة كهربائية.

افصل الطاقة قبل التنظيف. لا تغمر السلك أو القابض أو قاعدة الجهاز في الماء أو أي سوائل أخرى.



التشغيل - الضبط المسبق



استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الشاشة تعرض رموز الخطأ **E01**.

- الشفرة مكتظة بالطعام. أزل الدورق والغطاء. استخدم مكشطة لتقليب الطعام. كرر عملية المزج.

يفشل الجهاز في البدء أو التوقف أثناء تشغيله.

- تأكد من أن زر تبديل الطاقة قيد التشغيل (I) وأنه مضاء باللون الأزرق.
- تحقق لمعرفة ما إذا كانت الوحدة موصلة بأمان بماخذ كهربائي ذي تردد وجهد مناسبين.
- تحقق لمعرفة ما إذا كان الفاصمة المنصهرة للمأخذ الكهربائي قد انفجر أو إذا كان زر الضبط المسبق الموجود في الجزء السفلي الخلفي من القاعدة قد تحول إلى وضع إيقاف التشغيل (O).
- تم تجهيز هذا الجهاز بخاصية التعشيق - سيفشل الجهاز في البدء أو سيتوقف عندما لا يتم قفل الغطاء أو الدورق بشكل صحيح في مكانه.
- اضغط على زر الضبط المسبق في أسفل القاعدة.

يبدأ الضوء الأحمر على مؤشر حالة درجة حرارة المحرك في الوميض ويتوقف الجهاز عن التشغيل.

- لقد تعثقت آلة الحماية من الحمل الزائد للمحرك. افصل الجهاز من مأخذ التيار واتركه ليبرد لمدة **15** دقيقة. اضغط على زر الضبط المسبق في أسفل القاعدة ووصل الجهاز مرة أخرى لبدء المزج مرة أخرى.

إذا استمر وجود المشكلة أو إذا تعرضت لأي مشكلة أخرى، يُرجى زيارة الموقع <https://hamiltonbeach.global> لمعرفة مواقع مراكز الخدمة أو تفضل بأخذ المنتج إلى مكان الشراء.

ملاحظات

الوحدة لا تستجيب لأوامر الأزرار.

- أوقف تشغيل الوحدة وأعد تشغيلها مرة أخرى باستخدام مفتاح الطاقة لإعادة تعيين عناصر التحكم.
- إذا استمر وجود المشكلة، ستحتاج الوحدة إلى صيانة.

لا يتم مزج المكونات بصورة صحيحة.

- تحقق لمعرفة ما إذا كان قد تمت إضافة سائل كافٍ إلى المكونات. يجب أن يكون الخليط سائلاً ويتدفق بحرية في جميع الأوقات.
- القطع الصلبة كبيرة جدًا.
- الوعاء ممثلي للغاية. لا تتجاوز بالملء علامة الحد الأقصى.
- شفرات مجموعة الفاطح ليست حادة أو تالفة.
- حدد السرعة لعمل مزيج سائل.

PERLINDUNGAN PENTING

MS

Apabila menggunakan perkakas elektrik, langkah keselamatan asas harus sentiasa diikuti untuk mengurangkan risiko kebakaran, kejutan elektrik, dan/atau kecederaan kepada individu, termasuk yang berikut:

1. Baca semua arahan.
2. Perkakas ini tidak bertujuan untuk penggunaan oleh individu dengan kecacatan fizikal, deria, dan mental, atau kekurangan pengalaman dan pengetahuan, melainkan jika mereka diawasi dan diarahkan dengan teliti mengenai penggunaan perkakas oleh individu yang bertanggungjawab untuk keselamatan mereka.
3. Perkakas ini tidak boleh digunakan oleh kanak-kanak. Pastikan perkakas dan kordnya jauh daripada capaian kanak-kanak.
4. Pengawasan ketat diperlukan apabila perkakas digunakan berhampiran kanak-kanak. Kanak-kanak harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain dengan perkakas.
5. Untuk melindungi daripada kejutan elektrik, jangan rendam kord, plag, asas atau motor dalam air atau cecair lain.
6. Pusingkan perkakas ke "OFF" (○), kemudian cabut plag daripada soket apabila tidak digunakan, sebelum pemasangan atau pembukaan bahagian, dan sebelum pembersihan. Untuk mencabut plag, genggam plag dan tarik dari soket. Jangan sesekali tarik dari kord kuasa.
7. Kitaran pengendalian normal perkakas ialah 2 minit tepat. Biarkan 1 minit dari tempoh antara setiap kitaran maksimum.
8. Elakkan bersentuhan dengan bahagian yang bergerak.
9. Jangan kendali sebarang perkakas dengan kord atau plag bekalan

yang rosak, atau selepas kerosakan perkakas atau telah dijatuhkan atau dirosakkan dengan apa-apa cara. Penggantian dan pembaikan kord bekalan mesti dikendalikan oleh pengilang, ejen perkhidmatannya, atau individu yang berkelayakan sama untuk mengelakkan bahaya. Hubungi semua nombor perkhidmatan pelanggan yang disediakan untuk maklumat mengenai pemeriksaan, pembaikan, atau pelarasan.

10. Penggunaan sambungan, termasuk pengetinan balang, tidak disyorkan atay dijual oleh pengilang perkakas boleh menyebabkan risiko kecederaan kepada individu.
11. Jangan guna di luar rumah.
13. Jangan letak atas atau berhampiran gas panas atau pembakar elektrik, atau dalam ketuhar yang dipanaskan.
14. Jauhkan tangan dan perkakas daripada balang dan bilah pemotongan, semasa mengisar atau memotong makanan, untuk mengurangkan risiko kecederaan diri dan/atau kerosakan kepada pengisar atau lekapan (lekapan tidak akan disediakan dengan pengisar). Sudip getah boleh digunakan tetapi mesti digunakan hanya semasa perkakas tidak berjalan.
15. Bilah adalah tajam; kendalikan dengan berhati-hati—terutamanya semasa pembersihan balang.
16. Jangan gunakan balang yang pecah, sumbing atau retak.

17. Jangan gunakan pemasangan bilah pemotongan yang pecah, retak atau longgar.
18. Sentiasa kendalikan perkakas dengan penutup di tempatnya. Keluarkan penutup pengisi hanya untuk menambah bahan.
19. Jangan gunakan kitaran sup kecuali perkakas telah disejukkan sepenuhnya ke suhu bilik.
20. Semasa mengisar cecair panas di dalam balang pengisar atas yang terbuka, keluarkan penutup pengisi tengah dan tutup sebarang bukaan penutup bucu yang digunakan untuk menuang. Untuk mengelakkan luka terbakar: Jangan melebihi paras 2 cawan (473 ml). Cecair panas menolak penutup semasa pengisaran; oleh itu, dengan perlindungan sarung tangan ketuhar atau tuala tebal, letakkan satu tangan di atas penutup, jauhkan kulit yang terdedah daripada penutup, dan mula mengisar pada kelajuan terendah.
21. Berhati-hati jika cecair panas dituangkan ke dalam balang kerana ia boleh terpancut keluar daripada perkakas disebabkan oleh pemeluwapan secara tiba-tiba.
22. Jangan tinggalkan perkakas tanpa kawalan semasa sedang beroperasi.
23. Semak bahawa perkakas dipusingkan ke "OFF" (○) sebelum memasang kord ke dalam soket. Untuk memutuskan

sambungan, pusingkan kawalan ke "OFF" (○); kemudian tanggalkan plag daripada soket dinding. Untuk mencabut plag, genggam plag dan tarik dari soket. Jangan sesekali tarik dari kord kuasa.

24. Jangan guna perkakas untuk tujuan selain yang ditetapkan.
25. Jauhkan tangan dan perkakas, selain daripada penghentak yang disediakan, keluar dari bekas semasa pengisaran untuk mengelakkan kecederaan parah kepada individu atau kerosakan kepada pengisar. Penutup mesti sentiasa berada di tempatnya semasa menggunakan penghentak melalui bukaan penutup. Pengikis boleh digunakan hanya semasa pengisar tidak beroperasi.
26. **AWAS!** Untuk mengelakkan bahaya akibat penetapan semula pemotongan haba yang tidak disengajakan, perkakas ini tidak boleh dikuasakan melalui peranti pensuisan luar, seperti pemasa, atau disambungkan ke litar yang sentiasa dihidupkan dan dimatikan oleh utiliti.
27. Plag anda disediakan dengan fuis 13 ampere yang diluluskan oleh ASTA ke B.S. 1362. Jika anda perlukan pembawa fuis penggantian, ia mesti digantikan dengan pembawa berkod warna yang sama dengan tanda yang sama. Penutup dan pembawa fuis boleh didapati daripada ejen perkhidmatan yang diluluskan.

SIMPAN ARAHAN INI

Maklumat Keselamatan Pengguna Lain

Perkakas ini bertujuan untuk kegunaan di rumah sahaja.


⚠️ AMARAN Bahaya Kejutatan Elektrik. Panjang kord yang digunakan pada perkakas ini telah dipilih untuk mengurangkan bahaya menjadi kusut atau tersadung pada kord yang lebih panjang. Jika kord yang lebih panjang diperlukan, kord sambungan yang diluluskan boleh digunakan. Kadar elektrik kord sambungan mesti sama dengan atau lebih besar daripada kadar perkakas. Penjagaan mesti diambil untuk menguruskan kord sambungan agar ia tidak akan tergantung di atas meja di mana ia boleh ditarik oleh kanak-kanak atau secara tidak sengaja tersadung. Jika pemasangan bilah pemotongan berkunci dan tidak akan bergerak, ia akan

merosakkan motor. Jangan guna. Lawati <https://hamiltonbeach.global> untuk lokasi pusat perkhidmatan atau sila bawa produk ke tempat pembelian.

Jangan letakkan balang pengisar dalam peti sejuk dipenuhi dengan makanan dan cecair. Ini boleh menyebabkan kerosakan pada pemasangan bilah pemotongan, balang, pengisar, dan mungkin mengakibatkan kecederaan peribadi

NOTA: Mesin ini dilengkapi dengan perlindungan beban lampau enjin. Jika enjin berhenti semasa operasi disebabkan oleh pemanasan lampau, cabut plag dan biarkan ia menyejuk selama kira-kira 15 minit. Masukkan semula plag mesin untuk meneruskan operasi biasa.

⚠️ AMARAN



Bahaya Kejutatan Elektrik.

Putuskan kuasa sebelum membersihkan tapak pengisar. Jangan rendam kord, plag, atau tapak dalam air atau sebarang cecair.

Gagal untuk mematuhi arahan ini boleh menyebabkan kematian atau kejutatan elektrik.



Bahaya Kejutatan Elektrik.

Masukkan ke dalam soket bumi. Jangan keluarkan bumi. Jangan gunakan penyesuai. Jangan gunakan kord sambungan. Gagal untuk mematuhi arahan ini boleh menyebabkan kematian, kebakaran atau kejutatan elektrik.

⚠️ AMARAN



Bahaya Luka

Bilah pengisaran adalah tajam. Sentiasa letakkan penutup di atas bekas semasa pengisaran. Jangan letakkan tangan, sudu, atau perkakas lain dalam bekas semasa pengisaran.

Gagal untuk mematuhi arahan ini boleh menyebabkan patah tulang, luka atau kecederaan lain.



Bahaya Lecur

Sentiasa berhati-hati semasa pengisaran bahan panas. Gagal untuk mematuhi arahan ini boleh menyebabkan lecur.


Maklumat Keselamatan Pengguna Lain Sambungan



Mengitar Semula Produk di Akhir Hayat Perkhidmatannya

Simbol tong sampah yang beroda yang ditanda pada perkakas ini menandakan bahawa ia mesti diambil alih oleh sistem pengumpulan terpilih yang mematuhi Arahan WEEE supaya ia boleh sama ada dikitar semula atau dileraikan untuk mengurangkan kesan kepada alam sekitar. Pengguna bertanggungjawab untuk memulangkan produk ke kemudahan pengumpulan yang sesuai, seperti yang dinyatakan oleh kod tempatan anda. Untuk maklumat lanjut mengenai undang-undang tempatan yang terpakai, sila hubungi kemudahan perbandaran dan/atau pengedar tempatan.


Bahagian dan Ciri-Ciri




NOTA: Semua Balang telah membetulkan bilah serba guna.

Model: 58770-SAU
Jenis: B96
Kadar: 220-240 V ~ 50-60 Hz 1400 W

Sebelum penggunaan pertama: Selepas mengeluarkan perkakas, basuh semuanya kecuali Tapak dalam air panas, bersabun. Keringkan dengan teliti. Lap Tapak dengan kain lembap atau span. **JANGAN RENDAM ASAS DALAM AIR.** Penjagaan perlu diambil semasa membersihkan di dalam Balang kerana pemasangan bilah pemotong adalah sangat tajam.



Bahagian dan Ciri-Ciri (samb.)



Menggunakan Pengisar Pencampur Jus: Jadual Rujukan

Contoh Makanan	Saiz Balang Yang Disyorkan	Pilihan Proses Yang Disyorkan	Isipadu Maksimum Yang Disyorkan (ml)
Butiran Bijirin	0.5L (potongan pra besar hingga 2.5cm atau kurang)	Kering	Mana-Mana
Cili Merah Panggang			
Jintan Putih			
Pemukul Idli	1.0L / 1.5L	Keras Basah	900
Dal (kacang, kekacang)			900
Cutni Kelapa			900
Mentega Kacang			600
Tomato dan Cutni Bawang	1.0L / 1.5L	Lembut Basah	900
Rempah Kari			600
Sup: Mulligatawny, sangat nipis seperti kepingan lobak dan air mengikut skala 1:4 (kitaran yang lama memberikan pemanasan)	1.0L	Sup	Mana-Mana
Puri seperti kepingan lobak dan air mengikut skala 2:3	1.0L/1.5L	Kisar	Mana-Mana
Pengisaran			
Pemerahan Jus			

Resipi Sampel

Pemukul Idli

Penyediaan:

1. Rendaman pra Nasi Idli untuk 4 – 12 jam dengan dua kali isipadu air.
2. Salirkan air yang berlebihan selepas rendaman.

Resipi:

1. Gabungkan 2 bahagian air hingga 3 bahagian Nasi Idli (mengikut berat).

Dal (Resipi Kacang Kuda Hummus)

Resipi:

1. Rendaman pra kacang kuda untuk 12 jam dengan dua kali isipadu air sejuk.
2. Salir kacang kuda, letakkan di dalam periuk dan isi dengan air baharu, 2 sudu besar garam dan 1 sudu besar soda penaik.
3. Rebus kacang kuda, kurangkan panas untuk rebusan rendah selama 1 jam untuk melembutkannya.
4. Salir kacang kuda dan biarkan sejuk ke suhu bilik.
5. Campurkan bahan menggunakan nisbah 2 cawan kacang kuda, ½ cawan air sejuk, jus dari ½ limau, 2 ulas bawang putih, 3 sudu besar tahini dan 2 sudu besar minyak zaitun.
6. Tekan dan lepaskan butang fungsi pulse beberapa kali sehingga konsistensi yang dikehendaki dicapai.

Cutni Kelapa

Penyediaan:

1. Keluarkan daging dari kelapa segar dari kulit luar dan potong kepada potongan 1".

Resipi:

1. Tambah ketulan Kelapa Segar ke dalam balang untuk saiz ujian kumpulan, Tambah 5 Daun Pudina.

Mentega Kacang

Resipi:

1. Tambah Kacang Panggang pada isipadu yang dikehendaki.

Cutni Bawang & Tomato

Penyediaan:

1. Potong Tomato segar dan Bawang segar kepada ketulan 1".

Resipi:






1. Tambah ketulan Tomato dan Bawang ke dalam balang dalam 1: Nisbah 1 mengikut isipadu.

Rempah Kari









Resipi (Menghasilkan kira-kira 1.5 cawan rempah kari):

1. Bawang Cincang - 1 cawan, Halia sekeping 1 inci, Bawang putih 3-4 ulas.
2. Lada 2-3, Tomato yang Dipotong Dadu 1 cawan.






Pemasangan






MANUAL – Pengendalian



PRASET – Pengendalian





Menggunakan Penghentak



Pembersihan



AMARAN Bahaya Kejutan Elektrik.
Cabut plag kuasa sebelum pembersihan. Jangan rendam kord, plag, atau tapak dalam air atau sebarang cecair lain.



Penyelesaian Masalah

Paparan menunjukkan Kod Ralat E01.

- Bilah dipenuhi dengan makanan. Keluarkan balang dan penutup. Gunakan Pengikis untuk mengacau makanan. Ulang pengisaran.

Perkakas gagal bermula atau berhenti semasa sedang beroperasi.

- Pastikan Butang Suis Kuasa adalah ON (I) dan ia bercahaya biru.
- Periksa sama ada unit dipasangkan dengan selamat ke dalam saluran keluaran elektrik dengan voltan dan kekerapan yang betul.
- Periksa sama ada fius untuk soket elektrik meletup atau jika Butang Reset pada belakang bawah Tapak dipusingkan ke "OFF" (O).
- Perkakas ini dilengkapi dengan ciri saling kunci — perkakas akan gagal untuk bermula atau berhenti apabila sama ada Penutup atau Balang tidak terkunci dengan betul di tempatnya.
- Tekan Butang Reset di bawah Tapak.

Lampu merah pada Penunjuk Status Suhu Motor mula berkedip dan perkakas berhenti beroperasi.

- Perlindungan beban lampau motor telah dilaksanakan. Cabut plag dan biarkan sejuk selama 15 minit. Tekan butang Reset pada bahagian bawah Tapak dan plag masuk semula untuk memulakan semula pengisaran.

Jika masalah berterusan atau jika mengalami sebarang masalah lain, sila lawati <https://hamiltonbeach.global> untuk lokasi pusat perkhidmatan atau sila ambil produk ke tempat pembelian.

Nota

Unit tidak bertindak balas kepada arahan butang.

- Matikan kuasa unit dan kembali menggunakan Suis Kuasa untuk menetapkan semula kawalan.
- Jika masalah berterusan, unit perlu diservis.

Bahan tidak akan bercampur dengan betul.

- Periksa untuk melihat jika cecair yang mencukupi telah ditambah kepada bahan. Campuran mestilah cair dan bebas mengalir pada setiap masa.
- Kepingan pepejal terlalu besar.
- Bekas terlalu penuh. Jangan isi melebihi tanda MAX.
- Bilah pemasangan pemotongan tidak tajam atau rosak.
- Pilih kelajuan untuk membuat kisar cecair.

GB For more product and warranty information,
please visit <https://hamiltonbeach.global>

HI उत्पाद और वारंटी संबंधित जानकारी के लिए कृपया यहाँ
संपर्क करें <https://hamiltonbeach.global>

AR لمزيد من المعلومات حول المنتج والضمان، يرجى
زيارة الموقع <https://hamiltonbeach.global>

MS Untuk maklumat lanjut mengenai produk dan waranti,
sila lawati <https://hamiltonbeach.global>

